

Benefits Plus के स्वास्थ्य लाभ:



1. इसमें एंटीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं।
2. यह विटामिन ई, ओमेगा 3,6,7,9 फैटी एसिड से भरपूर है।
3. यह जठरांत्रप्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है।
4. यह कब्ज को खत्म करता है।
5. इसका उपयोग प्रजनन क्षमता और सैक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
6. यह झुर्रियों और उम्र बढ़ने की उपस्थिति को कम करता है।
7. शरीर से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में सहायक है।
8. यह मेमोरी मोड में सुधार करके एकाग्रता को बढ़ता है और मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित करता है।
9. हड्डी की ताकत और नई हड्डी के ऊतकों के विकास को बढ़ावा देता है।
10. यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है।
11. इसमें मजबूत एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं।
12. यह रजोनिवृत्ति संबंधित लक्षणों को बेहतर बनाने में मदद करता है और महिलाओं के यौन स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है।
13. यह हृदय और परिसंचरण प्रणाली को सशक्त बनाता है।
14. शरीर को सही मात्रा ऑक्सीजन पहुंचाता है और शरीर का पी एच स्तर संतुलित करता है।
15. यह अल्जाइमर रोग, गठिया,, गठिया और जिगर की समस्याओं को रोकता है।
16. रक्त परिसंचरण और कायाकल्प कोशिका का समर्थन करता है।
17. यह रक्तचाप को कम करने और मधुमेह के प्रबंधन में फायदेमंद है।
18. यह शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि करता है और शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार भी करता है जिससे पुरुषों में कामेच्छा और प्रजनन क्षमता बढ़ती है।
19. यह वजन घटाने में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है।
20. एलर्जी को कम करता है और हिस्टामाइन की रिहाई को रोक कर सूजन को रोकता है।
21. अनिद्रा, अस्थमा, के हमलो और काली खांसी से राहत देता है।
22. त्वचा, को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग रखता है।
23. आयु से संबंधित न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों और धब्बेदार विकारों को रोकता है।
24. तांबा, मैंगनीज और मैग्नीशियम में समृद्ध है जो हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है।



**स्वस्थ रहने
की चमत्कारी
संजीवनी औषधी**



रखे आपकी सेहत का ख्याल

Benefits Wellness Pvt. Ltd.

All India Head Distributer Point

173, 1st Shankar Nagar, Brahampuri, Jaipur-302002

Contact No. : +91 90232 62332

Toll Free No. : 1800 180 6786

care@usawellness.net

info@benefitswellness.in

www.usawellness.net | www.benefitswellness.in

जब आप धन खोते हे तो सिर्फ धन ही खोते हे लेकिन जब अपना स्वास्थ्य खो देते हे तो सब कुछ गवा बेतते हे। आज 95 प्रतिशत विमारियों का कारण अनियमित व अनियन्त्रित खान-पान, दुषित पानी, प्रदूषण व तनाव हे। यह अब आम हे कि बहुत कम उम्र में लोग विभिन्न बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय संबधी समस्याओं, किडनी की समस्याओं, गठिया, लकवा, लीवर और अन्य से प्रभावित हो जाते हे। अब सवाल यह हे कि हम इस समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएं ?

यहां एकमात्र समाधान **“बैनीफीटस् प्लस”** हे, जो न तो पोषण उत्पाद हे और न ही मल्टीविटामीन यह एक बोतल में एक संपूर्ण समाधान हे जो सभी स्वास्थ्य समस्याओं को आप से दूर रखता हे। यह हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता हे जो हमें किसी भी अन्य स्रोत से नहीं मिल सकता। **बैनीफीटस् प्लस** हमारे स्वास्थ्य से संबधित सभी प्रश्नों जैसे ऊर्जा, वजन प्रबंधन, प्रति रक्षा प्रणाली को बढ़ाना आदि। सभी प्रश्नों का एक उत्तर हे। अद्वितीय सूत्रीकरण **बैनीफीटस् प्लस** जो 10 अद्भूत दिव्य जड़ीबुटियां जैसे “नोनी, मँगोस्टीन, सीबक्थोर्न, मैकारूट, गोजी बैरी, शिलाजीत, ब्लैक कुरंट, अक्काई बैरी, सिगरू (मोरिंगा), गोडोडर्मा ल्यूसिडियम के द्वारा किया जाता हे।

NONI- नोनी फल आजकल कि आर्युवेदिक दुनिया में किसी परिचय को मोहताज नहीं हे। यह एक ऐसा फल हे जिसमें 150 से अधिक पोषक तत्व मौजूद हे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस फल के उपयोग से हर प्रकार की विमारियों से बचा जा सकता हे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हे, पुरुषों में नपुंसकता, शुक्राणुओं में वृद्धि, स्त्रियों के बांझपन, महावारी, कैंसर जैसी धातक विमारी को दूर करने में सहायक हे। ट्यूमर कौशिकाओं को समाप्त कर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता हे।



SEA BUCKTHORN-सीबक्थोर्न इस रसीले फल का इतिहास बहुत पुराना हे। यह औषधिय गुणों से भरपूर इसका सेवन करने से कैंसर, डायबिटीज, जैसी विमारियों को दूर करने में सहायक होता हे। यह एक मात्र फल हे जिससे ओमेगा-3,6,7,9, फैटी एसिड पाया जाता हे। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार इसमें संजीवनी बुटी के गुण मिलते हे। 80 के दशक मे रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता रहा हे। व भारतीय सैनिकों की खुराका का भी हिस्सा हे।

MANGOSTEEN- मँगोस्टीन फल स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वास्थ्य लाभ दिलाने में सहायक होता हे। मँगोस्टीन फल में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व और खनिज पदार्थों की अच्छी मात्रा होती हे।

मँगोस्टीन फल का उपयोग रक्तचाप और रक्त परिसंचरण को ठीक रखने, कैंसर को रोकने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने और मासिक धर्म की परेशानियों को दूर करने व वजन घटाने, रक्त शर्करा नियंत्रण उच्च रक्तचाप और पाचन की समस्या को दूर करने में सहायक हे।



Maca Root- मैकारूट पारंपरिक रूप से पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने, ऊर्जा और सहनशक्ति में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता हे। यह विभिन्न विटामिन और खनिज संयुक्त एक शक्तिशाली पूरक हे। मैकारूट पहलवान व खिलाड़ियों के लिए स्टैमिना बढ़ाने में सहायक हे।

GOJI BERRY- गोजी बैरी को सुपर फुड कहा जाता हे तो गलत नहीं हे। बैरी की अन्य जड़ी बुटी के मुकाबले इनमें 11 से ज्यादा अमीनो एसिड गुण होते हे। गोजी बैरी हाई एंटी ऑक्सिडेंट गुण होते हे जो मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, पथरी जैसे रोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता हे।



SHILAJIT- शिलाजीत, आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत में 84 प्रकार के मिनरल्स पाये जाते हे, यह कुछ खास चट्टानों में पाई जाती हे। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर में खून की कमी, अनियमित हृदयगति, सिर दर्द, हाथ पेर ठंडे होना, मधुमेह, रक्त प्रवाह के जेसे रोगों को दूर करने में सहायक हे, स्वपन्दोष, योनदुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता को दूर कर दाम्पत्य जीवन शैली के आनन्द को बढ़ाता हे।

ACAI BERRY- अक्काई बैरी, इसमें प्रोटीन, स्वास्थ्य बल, ओमेगा 3,6, और 9 विटामिन ए.सी.ई. बी1, बी2, बी3, प्रचुरमात्रा में पाया जाता हे। इसका नियमित उपयोग ले त्वाचा, बाल, वजन, घटाने, हृदय को मजबूत, कोलेस्ट्रॉल को कम करता हे। कैंसर जैसी विमारी के लड़ने में सहायक, पाचन क्रिया को सही करता हे। जिससे दिल की विमारियों का खतरा कम होता हे। योन शक्ति को बढ़ाता हे, मानसिक रोगों को सुधारने में सहायक हे।



GANODERMA LUCIDUM- गोडोडर्मा ल्यूसिडियम में मजबूत एंटीऑक्सिडेंट होते हे जो शरीर को मुक्त कणों के नकारात्मक प्रभावों से बचाते हे, जो सूर्य, रसायनों और प्रदूषकों के दैनिक प्रदर्शन से शरीर के अंदर बनता हे। यह अस्थमा से पीडित लोगों के लिए बहुत उपयोगी हे और फेफड़ों में अच्छा प्रभाव ला सकता हे। सर्दी खांसी को कम करने में सहायक हे।



MORINGA - सिगरू का इतिहास 4,000 साल पहले का हे, पहले की सभ्यताओं में इसका उपयोग एनीमिया, गठिया, जोड़ों के दर्द और कब्ज को कम करने में मदद करता हे। सिगरू के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह हे कि यह पोषक तत्वों और औषधिय रसायनों का भंडार हे। सिगरू अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट गुणों के कारण प्रभावीपूरक में से एक हे। इसके अलावा, सिगरू में आंखों की रोशनी, श्वसन, पाचन और विषनिस्पंदन हित शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती हे।

BLACK CURRENT - ब्लैक कुरंट काले किशमिश के नाम से प्रचलित हे। अल्जाइमररोग गठिया, पेट लीवर और यकृत की समस्याओं को रोकने में बहुत लोकप्रिय हे, यह रजोनिवृत्ति, दर्दनाक अवधि और कटे घाव एवं कीट पतंगों के काटने पर भी अच्छा काम करता हे। दस्त के खिलाफ भी बहुत लाभदायक हे।

